

पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड

पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड (पीएफसी सीएस) को व्यवसाय संघ सेवाओं सहित वित्तीय परामर्शदात्री सेवाओं की क्षेत्रगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 18 जुलाई 2011 को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। कंपनी ने व्यापार आरंभ करने का प्रमाण पत्र दिनांक 02 सितंबर 2011 को प्राप्त किया तथा 01 करोड़ रुपए की प्राधिकृत शेयर पूंजी के साथ प्रचालन आरंभ किया।

प्रत्यायक

कंपनी के पीएफसी जो एक पीएफआई तथा सीपीएसयू का अनुभव है, जिसकी अगस्त, 2008 से ऋण व्यापार संघ व्यापार में मौजूदगी है और यह अपनी सुदृढ मूल्यांकन क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध है। कंपनी विद्युत क्षेत्र के लिए ऋण प्रदान करने वाले क्लब का भी प्रबंधन कर रहा है, जो कि एक संघ व्यवस्था के तहत विद्युत परियोजनाओं को वित्त पोषित करने वाला बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों का विशिष्ट समूह है।

प्रदान की जाने वाली सेवाएं

वर्तमान में कंपनी विद्युत क्षेत्र के लिए ऋण व्यापार संघ सेवाओं पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। ऋण व्यापार संघ के तहत विभिन्न क्रियाकलाप/सेवाएं निम्न प्रकार हैं:-

- 1) ऋणदाताओं की पहचान करना।
- 2) आईएम/आवधिक पृष्ठों को तैयार करना।
- 3) ऋणदाताओं तक पहुंचना तथा ऋणदाताओं द्वारा सम्यक तत्परता को सुकर बनाना।
- 4) प्रलेखन में सहायता प्रदान करना।

वर्तमान में, कंपनी विभिन्न प्रकार की विद्युत उत्पादन परियोजनाओं, जैसे थर्मल, हाइड्रो तथा सौर विद्युत परियोजनाओं में व्यापार संघ प्रस्तावों पर कार्रवाई कर रही है।

उपर्युक्त के अलावा, कंपनी अपनी विशेषता के क्षेत्र के अनुरूप परामर्श प्रदान करने के क्षेत्र में भी व्यापार के अवसरों की तलाश कर रही है, जैसे :-

- 1) परियोजना प्रोफाइल, परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, निवेश पूर्व अध्ययन आदि ।
- 2) परियोजना समनुदेशन के संबंध में बैंकों, संस्थानों आदि की ओर से मुख्य प्रबंधक के रूप में कार्य करना तथा उपक्रमों व्यापार आदि के प्रबंधन में परामर्शदाता के रूप में कार्य करना ।
- 3) विद्युत, उर्जा तथा अवसंरचना के क्षेत्र में पुनर्गठन, व्यापार रणनीति, वित्तीय नीतियों तथा दीर्घावधि योजना पर परामर्श देना ।
- 4) निधियां जुटाना, मुद्रा जोखिम प्रबंधन, परियोजना मूल्यांकन तथा प्रतिमान।

संदर्भी दृष्टिकोण

पीएफसी सीएएस का स्वपन अवसंरचना क्षेत्र के मुख्य रूप से उर्जा पर अपना ध्यान केन्द्रित करते हुए, राज्य/केन्द्र/निजी स्वामित्व वाली कंपनियों/पीपीपी आदि को वित्तीय परामर्श संबंधी समाधान की पेशकश करवाने वाले एक प्राथमिकता संस्थान के रूप में उभरना है। इसका विचार डिस्कॉम सहित राज्य/केन्द्र/निजी/पीपीपी स्वामित्व वाली कंपनियों में परामर्श संबंधी समाधान की पेशकश करना है ताकि उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार किया जा सके, इस प्रकार पीएफसी सीएएस विद्युत क्षेत्र में सुधार करने की दिशा में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा ।

पीएफसी सीएएस पर संक्षिप्त जानकारी के लिए, कृपया संलग्न प्रस्तुतिकरण का अवलोकन करें ।

हमें संपर्क करें :-

चारु कायस्थ, वरिष्ठ प्रबंधक : 011-23456523

bZesy&pfccas@pfcindia.com

पत्र व्यवहार का पता

पीएफसी सीएएस

मार्फत पीएफसी उर्जा निधि,

1 बाराखम्बा लेन, कनॉट प्लेस,

नई दिल्ली - 110001